

प्रेस-नोट

जनपद-सुलतानपुर

दिनांक-14.01.2021

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर डॉ० अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत, अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर व समस्त क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्रों/अवैध मादक पदार्थों/ शांति अपराधियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

थाना-कुड़वार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु प्रचलित अभियान ऑपरेशन अंकुश के तहत वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध प्रचलित अभियान में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय जनपद सुलतानपुर महोदय के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष श्री अरविंद कुमार पाण्डेय मय हमराह उ०नि० श्री सीताराम यादव, का० सुरेश कुमार, का० वीरेन्द्र कुमार व का० वंश कुमार द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर इस्लामगंज के पास से हत्या में नामजद वांछित निजाम हैदर उर्फ निज्जु पुत्र मतलूब हुसैन निवासी मानियारपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर को समय 12:40 बजे गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है की दिनांक 28.12.2020 को आपसी विवाद की बात पर निजाम हैदर उर्फ नीज्जु व दूसरे पक्ष के आबाद अली आदि के मध्य मारपीट हो गई थी मारपीट के दौरान बहादुर अली पुत्र कायम अली उम्र करीब 75 वर्ष को चोटे आई थी दौरान इलाज जिला अस्पताल सुलतानपुर में बहादुर अली की मृत्यु हो गई। मार पीट की घटना में आबाद अली पुत्र हामिद हुसैन की तहरीर पर थाना स्थानीय मु०अ०स०-655/20 धारा-452,323,504,506,427, 34 आईपीसी पंजीकृत कर विवेचना से 307, 302 आईपीसी की बढ़ोतरी कर निजाम हैदर उर्फ नीज्जु पुत्र मतलूब हुसैन निवासी मानियारपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही

शान्ति व्यवस्था भंग किये जाने के सम्बंध में चलाये गये अभियान के अन्तर्गत थाना-कोतवाली नगर से 02, थाना-कूरेभार से 02, थाना-दोस्तपुर से 04, थाना-मोतिगरपुर से 03 कुल-11 व्यक्तियों का अलग-अलग प्रकरण में शान्ति व्यवस्था भंग करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।